



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 623 राँची, गुरुवार,

1 अगस्त, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

30 जुलाई, 2019

संख्या-5/आरोप-1-66/2014-9277 (HRMS)-- श्रीमती अंजना दास, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गढ़वा के विरुद्ध परिवादी श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी, ग्राम-झुरा, थाना-गढ़वा द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती दास के विरुद्ध स्थगित माँग की भूमि का नामांतरण करने का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद पत्र के आलोक विभागीय पत्रांक-11726, दिनांक 16.12.2014 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-133/स्था०, दिनांक द्वारा परिवाद पत्र की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा से करवा कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत श्रीमती दास के विरुद्ध विभागीय स्तर पर प्रपत्र-‘क’ गठित किया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये-

आरोप- श्रीमती अंजना दास, तत्कालीन अंचलाधिकारी, गढ़वा द्वारा मांग पंजी-2 में सागिन आदेश को विलोपित किये बिना ही नामांतरण की प्रक्रिया करते हुए स्वीकृति दी गई है, जो अंचल अधिकारी के रूप में इनके क्षेत्राधिकार से बाहर है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-887(hrms), दिनांक 27.06.2018 द्वारा श्रीमती दास के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-79, दिनांक 03.04.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्रीमती दास के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को सही नहीं पाया गया।

श्रीमती दास के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्रीमती दास को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANJANA DAS 20060400034	श्रीमती अंजना दास, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन अंचल अधिकारी, गढ़वा को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
